

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 682]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 24 नवम्बर 2022 — अग्रहायण 3, शक 1944

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2022

अधिसूचना

क्रमांक 11222/वि.स./स्था./2022. – छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1990 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम 1981 के अन्तर्गत निर्मित सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें आदेश) नियम 1990 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं। अर्थात्-

संशोधन

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के सेवा अधिनियम, 1981 के अधीन निर्मित सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें आदेश) नियम, 1990 में सहायक ग्रेड-I, सहायक ग्रेड-II एवं सहायक ग्रेड - III के पदनाम को कॉलम क्र. - 3 में दर्शाये अनुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

स.क्र.	वर्तमान पदनाम	परिवर्तित पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	सहायक ग्रेड - I	सहायक अनुभाग अधिकारी (Assistant Section Officer)
2.	सहायक ग्रेड - II	वरिष्ठ सचिवालय सहायक (Senior Secretariat Assistant)
3.	सहायक ग्रेड - III	कनिष्ठ सचिवालय सहायक (Junior Secretariat Assistant)

2. उक्त पदनाम परिवर्तन इस शर्त के अधीन किया जाता है कि पदनाम परिवर्तन के आधार पर संबंधित कर्मचारियों द्वारा उच्चतर वेतनमान की मांग नहीं की जाएगी अर्थात् पदनाम परिवर्तन के बाद इनका वेतनमान पूर्ववत् रहेगा।

आदेशानुसार,

हस्ता./-
(दिनेश कुमार शर्मा)
सचिव.